



Stock Market Premium Course



CLAIM OFFER NOW

Financial Street- 10 Years of Excellence

Our Course Modules



Module I – Basic Stock Market



Module II – Technical Analysis



Module III – Fundamental Analysis



Module IV – Wealth Management



Module V – Mentorship Program

**Master Investing
&
Trading!**

**Call/Whatsapp
+91-6264537290**

Start Your Financial Journey
"Unlock the secrets of smart investing & trading"



OUR SUCCESS STORIES

 पत्रिका
एक्सपर्ट
टांक

ग्यालियर. आप सभी ने राकेश झुनझुनवाला और वॉरेन बफेट का नाम सुना होगा, जिन्हें बिग बुल के नाम से भी जानते हैं। उन्होंने मल्टीबैंगर स्टॉक में अपार सफलता पाई। कोविड-19 के बाद भारतीय निवेशक तेजी से बाजार में बढ़ रहे हैं, जिनका रुझान अब डे ट्रेडिंग से हटकर मल्टीबैंगर स्टॉक की तरफ जा रहा है। मल्टीबैंगर स्टॉक मतलब जो आपको लम्बी अवधि में बेहतर रिटर्न दे। उदाहरण के तौर पर किसी ने [REDACTED] में सन् 1980 में 10 हजार का निवेश किया होता तो 2017 में 452 करोड़ रुपए अर्न किए होते। इसी प्रकार किसी ने [REDACTED] में 2006 में 1 लाख का निवेश किया होता तो आज साढ़े 3 करोड़ अर्न किए होते। मल्टीबैंगर स्टॉक में सफलता पाने के लिए निवेशकों को कुछ बातों का ध्यान रखना भी जरूरी है।



अपने निवेश का 10 प्रतिशत शिक्षा में खर्च करें

एनएसई के अनुसार 80 से 90 प्रतिशत लोग ऑप्शन ट्रेडिंग व उ ट्रेडिंग में नुकसान उठाते हैं। इसलिए लम्बी अवधि के लिए अच्छे स्टॉक पर निवेश करें। फर्जी यूट्यूब चैनल व टेलीग्राम चैनलों से बचें। अपने निवेश का 10 प्रतिशत शिक्षा में खर्च करें।

आज सेक्टर बाजार में निवेश करते हैं तो यहां से अच्छा रिटर्न पाना असंभव नहीं है। अगर आपका इन्वेस्टमेंट सही जगह होगा तो ही मल्टीपल रिटर्न हासिल किया जा सकता है।

अगर इन्वेस्टमेंट की कैपिटल जल्दबाजी में लिया जाए तो चौंके या अचानक से रिटर्न की निशानें लगे साथ ही रिटर्न इंतजार करना होता है। इन्वेस्टमेंट

एक्सचेंज में हमेशा से बहुत इन्वेस्टमेंट की एडवाइज देते हैं। उनका कहना होता है कि निवेशकों को निवेश से पहले अपना होमवर्क अच्छे से करना चाहिए।

एलेक्ट्रिक बयलिटिंगेशन के साथ अच्छी एनालिटिकल रिजल्ट, स्टूडेंट्स माइंड और रिसर्च
रिजल्ट्स होना चाहिए।
स्टीक ट्रेनिंग प्रैक्टिस
कृष्ण और प्रोफेसर की
जानकारी के साथ
अलग-अलग सेक्टर और
इंडस्ट्री के बारे में जान होना
जरूरी है। माइक्रोट के उत्तर-प्रश्न और उत्तर होने
वाले कार्यों के साथ में फल होना जरूरी है।



संतोष शर्मा, सीनियर केमिस्ट हिलेन्सलैब मैनेजर

- **प्रोफेशनल ट्रेडर** को खाद्यपट्ट की मूल बातें सम्झना की जरूरत है। कॉलेज की डिग्री आजकल एक प्रीकंडिशन है।
- **रैटड या गार्डियन** द्वारा संक्षिप्त दरतावेज बना कर देने के बाद नगराजिम के नाम पर भी अयाउंट खोला जा सकता है।
- **इनपोर्टेंट एक्जिड्यूरी** या किसी गैर कंपनी में प्रोफेशनल के रूप में काम करने के लिए सर्टिफाइड होना जरूरी है।

हस्त फील्ड में अच्छी एनलिटिकल रिफ्लेक्ट, स्ट्रुंग माइंड और रिसर्च सिक्कल जरूरी है। इनके अलावा स्टॉक ट्रेनिंग बैकग्राउंड क्लब और ज़ेब्रस की जानकारी होने के साथ अलग-अलग सेक्टर और इंडस्ट्री की जानकारी भी होनी चाहिए। मार्केट में अपने वाले नॉट प्रोडक्ट्स, उनके उत्तर-मध्यम से जुड़ी सेलैस्ट जानकारी आवश्यक है। प्रेशर होना कलन आना चाहिए। हस्त फील्ड में 'कलमार्थ' बनने के लिए अच्छी कम्यूनेट सिक्कल रिसर्च एप्टीट्यूड और फाइनल इंडस्ट्री की जानकारी सबसेसे दिलस सचोरी है।

- स्टॉक मार्केट में आप कई फीट पर काम कर सकते हैं। इनमें स्टॉक ब्रोकर
- फाइनांसियल एडवाइजर, इन्वेस्टमेंट एडवाइजर, फीडबैकिया मैनेजमेंट सर्विस
- रिसर्च एनालिस्ट, ऑनलाइन स्टॉक ट्रेडिंग, फाइनांसियल एनालिस्ट, इक्विटी एनालिस्ट, मार्केट रिसर्चर, पब्लिक रिसर्चिस्ट, एडवाइ इंगोरीस रीट्रोस्पेक्टिव एडवाइजर।

A hand holds a black smartphone next to a laptop. The laptop screen displays the text 'MUTUAL FUNDS' in a large, white, handwritten-style font. Below the text is a white line graph with five data points connected by dashed lines. To the right of the graph is a circular icon containing a white bar chart. A hand in a suit sleeve is visible on the right side of the laptop, with the index finger pointing upwards. The background is a blurred indoor setting.

मायुआल फंड एजेंट बनने के लिए पढ़ाई की कोई आवश्यकता नहीं है। यदि आप क्लास 10वीं तक भी पढ़े हैं तो एनआइएसएम के लिए रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। आपके पास मुख्य डॉक्यूमेंट्स में पैस कार्ड और आधार कार्ड होना अनिवार्य है।

■ निवेशकों को बाजार में उपलब्ध विभिन्न योजनाओं से अवगत कराना।

■ अन्य प्रतिस्पर्धी
उत्पादों की तुलना में
निर्देश के लिए म्यूचुअल
फंड योजनाओं की

प्रभावशीलता को स्पष्ट करना।

म्यूचुअल फंड खरीदने, रिजर्विंग, रिडीमेशन से संबंधित लेनदेन करने में मदद करना।

■ निवेश के प्रदर्शन पर अक्सर निवेशकों का मार्गदर्शन करना।

यदि आप मनुष्यजल कंड एजेंसी बनते हैं तो आपको पास एक ऑडिटरियल इनक्वयरी ब्युरो (विभाग) होगा। पूरा टाउन या बंद टाउन भी ठीक कर सकते हैं। आप लोगों को जबरन के अनुसार मनुष्यजल कंड देने और उससे जुड़ाव बनाने का एक किंगडम शुरू कर सकते हैं। आप ऑर्गनाइजेशन बेसाइडिंग या प्लॉगिंग बनाना घर बैठे भी काम कर सकते हैं।

पदेम में म्यूजुअल फंड में निवेश बहुत तेजी से लोगों को बीच लोहाचिप हो रहा है। ऐसे में अगर आप एक म्यूजुअल फंड एंजेंट बनना हैं और पूरी लगन और मेहनत से लोगों को सही म्यूजुअल फंड का चुनाव कराने में उनकी मदद करते हैं तो यह आपके लिए बहुत अच्छा कौशल सबित हो सकता है। म्यूजुअल फंड एंजेंट बनने के लिए आपको प्र-अप्रोवेटेशन से दी-ए सीर्टिफिकेशन (एजाम) काकिरवाई करना होगा।

विकास शर्मा, फाउंडर, काउन्सिलियल स्ट्रीट

About Us

Financial Street is a well-recognized name in the financial market education. We are specializes in training investors and providing high quality training to investors and traders across the country and beyond.

Financial Street is a group of professionals; our educational program is anchored around that philosophy. Our program is guided by our vision and mission. All programs are carefully designed to develop our students into global leaders or entrepreneurs, who can create wealth for their organization or for themselves. Students go through the curriculums which are designed to meet the requirements of today's industry.

Financial Street also takes services of industry experts time to time and they share their experiences. Our faculties are continuously working to keep themselves abreast of contemporary developments. Financial Street provides high quality education for financial market. That is contemporary, industry responsive and relevant to the current needs of the broking community.

Course Overview & Objectives

This comprehensive premium course is designed to equip aspiring investors and traders with the knowledge to navigate the financial markets, focusing on long-term wealth creation, strategic trading and effective risk management.

Learn to Identify Multibagger Stocks

- ✚ How to research companies that may have long-term growth potential
- ✚ Simple way to do fundamental and technical research
- ✚ How to build a diversified portfolio based on research
- ✚ How to manage money/risk and protect your capital from losing big money



Module I: Basic of Stock Market (Invest like a Pro!)

Uncover the real value of companies by analyzing their financial health and long-term growth potential.

 **What is Stock Market/Why Should You Invest?**

 **What is IPO & How to Invest in It?**

 **What is Demat Account & How to Open It?**

 **What is Mutual Fund, SIP, ETF?**

 **Future & Option (How to Protect Your Self?)**

 **Myths of Intraday Trading/Penny Stocks**

 **What You Can Learn from History?**

 **What is Insurance & How to Sell It Effectively?**



Module II: Technical Analysis (Crack the Code of the Markets!)

Use charts, patterns, and indicators to spot trends and make smart, well-timed trading decisions.

 **What is Technical Analysis?**

 **How to use Trading view & How to find Multibagger Stocks in Technical Analysis?**

 **How to use ADX Indicator?**

 **Dow Theory & Elliott Wave**

 **Moving Averages (Golden Crossover)**

 **RSI/MACD (Advance) Indicator**

 **Volume (Advance) Indicator**

 **Super Trend/ Bollinger Bands (Advance) Indicator**

 **Importance of Swing Trading**

 **Technical Chart Patterns**



Module III: Fundamental Analysis (Kickstart Your Investing Journey!)

Learn how the market works, why it matters, and the tools you need to build a strong financial future.

 **What is Fundamental Analysis?**

 **How to use Screener & How to Find Multibagger Stocks in Fundamental Analysis?**

 **What is PE RATIO?**

 **What is PB RATIO?**

 **What is EPS RATIO?**

 **What is Market Cap?**

 **What is Book Value?**

 **What is Dividend Yield?**

 **What is Face Value?**

 **What is Debt to Equity Ratio?**

 **What is ROCE?**



 **What is ROE?**

 **What is BETA (Volatility)?**

 **What is RATIO Analysis?**

 **What is Quarterly Result?**

 **What is Profit and Loss Account?**

 **What is Balance Sheet?**

 **What is Cash Flow?**

 **Importance of Peer Comparison**

 **What is Share Holding Pattern?**



Module IV: Wealth Management (Build Wealth That Lasts!)

Master proven strategies to grow, manage and protect your money for long-term financial freedom.

 **Importance of Wealth Management Strategy**

 **Strategy 1- LM-RM 1**

 **Strategy 2- LM-RM 2**

 **Systematic Portfolio Management**

 **Mutual Fund /ETF/SIP/ULIP Analysis**

 **Why Gold is God's Money?**

 **Importance of Fixed Deposit**

 **REIT (Real Estate Investment Trust)/BONDS**

 **Crypto Currency- Worth it or not**

 **Impact of Global Stock Market/E-I-C Analysis**

 **How to Analyse Unlisted Stock & Start-up?**



 **Importance of Taxation in Investment**

 **True Meaning of Rupee Cost Averaging**

 **Magic of Multibagger Stocks**

Module V: Mentorship (Guided learning with homework, revision, and practice!)

Regular homework assignments, revision sessions, and hands-on practice to boost your skills and confidence.

■ Important Disclaimer

-  This course is for educational purposes only
-  No guarantee of returns
-  Not professional investment advice
-  Consult licensed advisors before investing





TIMES OF INDIA

Vikas Sharma
Founder
Financial Street



Youth in India Embrace Stock Market Investments

The financial world is changing so fast and everyone wants to be on the profit side. That's why individual investors and students regularly take investor awareness programmes. Recently, IAP was conducted at a private management college in Gwalior where individual investors and management students learn about the post-effect of covid -19 on jobs economy and investment.

As we all know, The Covid-19 pandemic was the worst crisis since World War-2. Financial, social, and other consequences of COVID-19 will remain for many years. But as we know, everything has its pros and cons. In Indian History, for the first time ever, Demat Account across 10 Core. The Coronavirus badly hit the stock market all over the world, but the Indian economy witnessed a new investment trend. According to the data. Before Covid-19 in March 2020, there were 4 crore demat accounts and only in 2-3 years 6 crores of new accounts were reported.

As a country with the largest young population, expecting a booming economy, Indian young investors show an unprecedented degree of financial prudence. Most young investors directly invest in the market, without having proper knowledge.

You must have heard of Rakesh Jhunjhunwala and Warren Buffett, we know them as a big bull. They have made billions of dollars in the financial market. They used time as money and converted their money into wealth.

Benjamin Graham, known as the 'Father of Investment,' famously stated, "Investing in knowledge yields the most profitable interest."

According to NSE, 80 to 90 percent of investors lose their hard-earned money in option and day trading. Beware of fraud on YouTube and telegram channels. Atleast invest 10% in education of your investment.

HOW TO SELECT A MULTI-BAGGER STOCK?

Before selecting a multi-bagger stock, investors must investigate the business.

HERE ARE SOME KEY FACTORS FOR SELECTING MULTI-BAGGER STOCKS:

- **Strong Management:** A business cannot succeed without strong management. Look at multiple aspects, like diversion of funds, pledging of shares, board independence, discipline, and obligation.
- **Promoter Holding:** Find a stock that has good promoter holding which shows promoter confidence in their business.
- **Good Earning:** An investor earns money when the company makes profits. Keep your eyes on the PE ratio and EPS.

Another crucial element lies in the marginal allocation of funds. Utilising technical analysis for enhanced timing and upholding a robust risk management strategy are imperative. For instance, a group of acquaintances invested 1,000 rupees in [REDACTED] in 1980, which burgeoned to 1894 crores by 2021.

तीन साल में ढाई गुना बढ़े डीमैट एकाउंट पहले पढ़ें फिर निवेश की सोचें, वरना हो सकता है नुकसान

एक्सपर्ट स्टोरी



विकास शर्मा
फाउंडर
फाइनेंशियल स्ट्रीट

मल्टी बैगर स्टॉक कैसे चुनें

मजबूत प्रबंधन- कोई व्यवसाय मजबूत प्रबंधन के बिना सफल नहीं हो सकता। कई पहलुओं फंड का डायवर्जन, शेयरों को गिरवी रखना, बोर्ड की स्वतंत्रता, अनुशासन व दायित्व पर गौर करें।

प्रमोटर होल्डिंग- ऐसा स्टॉक ढूँढ़ें, जिसमें अच्छी प्रमोटर होल्डिंग हो जो प्रमोटर को उनके व्यवसाय में विश्वास दिखाता हो।

अच्छी कमाई- एक निवेशक तब पैसा कमाता है, जब कंपनी मुनाफा कमाती है। पीई अनुपात और ईपीएस पर अपनी नजर रखें।

आपने राकेश झुनझुनवाला और वॉरेन बफेट का नाम तो सुना ही होगा। इन्हें हम बिग बुल के नाम से भी जानते हैं। उन्होंने वित्तीय बाजार में अरबों डॉलर की संपत्ति बनाई है। उन्होंने समय का उपयोग धन के रूप में किया और अपने धन को संपत्ति में बदल दिया। पिछले तीन वर्षों से युवा निवेशकों को शेयर बाजार में रुचि लेते देखा है। कोरोना ने पूरी दुनिया के शेयर बाजार को बुरी तरह प्रभावित किया, लेकिन भारतीय अर्थव्यवस्था में निवेश का नया रुझान देखने को मिला। आंकड़ों के मुताबिक मार्च 2020 में 4 करोड़ डीमैट खाते थे और वहीं वर्तमान में 10 करोड़ से अधिक डीमैट खाते खुल चुके हैं।

निवेश का 10 प्रतिशत शिक्षा में खर्च करें : एनएसई के मुताबिक 80 से 90 फीसदी निवेशक ऑप्शन और डे ट्रेडिंग में अपनी मेहनत की कमाई गंवा देते हैं। यूट्यूब और टेलीग्राम चैनलों पर धोखाधड़ी से सावधान रहें। अपने निवेश का कम से कम 10 प्रतिशत शिक्षा में निवेश करें।

बढ़ती अर्थव्यवस्था के युवा दिखा रहे प्रतिभा

सबसे बड़ी युवा आबादी वाले देश के रूप में तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था की उम्मीद करते हुए भारतीय युवा निवेशक अपनी प्रतिभा दिखाते हैं। अधिकांश निवेशक उचित जानकारी के बिना सीधे बाजार में निवेश करते हैं, जो कि गलत है। निवेश से पहले अध्ययन बहुत जरूरी है।



शेयर बाजार में
जल्दबाजी से बचें



विकास शर्मा

निवेश के क्षेत्र में धैर्य सिर्फ एक गुण नहीं बल्कि सफलता की कुंजी भी है। शेयर बाजार में जल्दबाजी से बचना आपके वित्तीय परिणामों को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित कर सकता है। शेयर बाजार में जल्दबाजी में लिए गए निर्णय अक्सर त्वरित लाभ की इच्छा से प्रेरित होते हैं। निवेशक ऐसे शेयरों का पीछा करने के लिए प्रेरित हो सकते हैं, जबकि इससे अल्पकालिक लाभ मिल सकता है। आप शेयर बाजार में फायदा ले सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको दीर्घकालिक निवेश रणनीति का पालन करना होगा। अपने पोर्टफोलियो में विविधता लाकर, जोखिमों का प्रबंधन करके आप अपनी वित्तीय स्थिरता को बढ़ा सकते हैं और समय के साथ अपने निवेश लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं। धन निर्माण में सबसे शक्तिशाली शक्तियों में से एक चक्रवृद्धि व्याज है। आय को पुनर्निवेशित करके और समय के साथ उन्हें अधिक आय उत्पन्न करने की अनुमति देकर, निवेशक अपनी संपत्ति को तेजी से बढ़ा सकते हैं। इस दृष्टिकोण के लिए धैर्य और लंबे समय तक निवेशित रहने की प्रतिबद्धता की आवश्यकता होती है। सफल निवेशक अक्सर एक स्पष्ट वित्तीय योजना के साथ शुरुआत करते हैं, जो उनके लक्ष्यों, जोखिम, सहनशीलता और निवेश क्षितिज को रेखांकित करती है। प्राप्त करने योग्य उद्देश्य निर्धारित करके और समय-समय पर अपनी प्रगति की समीक्षा करके, निवेशक निवेश के दीर्घकालिक लाभों पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। बाजार के रुझानों, आर्थिक संकेतकों और कंपनी की बुनियादी बातों के बारे में अच्छी तरह से जानकारी रखना, निवेश के बारे में सही निर्णय लेने के लिए जरूरी है।

शेयर मार्केट कई क्षेत्रों में प्रोफेशनल्स की जरूरत

बाजार की नब्ज टटोलने का हुनर दिलाएगा कामयाबी

EXAM पोर्टल
getrha.com

भोपाल, बॉम्बे के दौर में जहां शेयर देने वाले कई सेक्टर को खाली बाजार मिला था, वहीं शेयर मार्केट में उनके मुकाबले निवेश करने वालों की संख्या कम थी। इसे देखते हुए वित्तीय में इस सेक्टर में शेयर ब्रोकर, मॉडल मार्केट एनालिस्ट और कई जानकारी लेनी की जरूरत महसूस की जा रही है। इन क्षेत्र में एक्सपर्ट के लिए बड़ी संख्या में है। कई संस्थानों में इनके अलग-अलग कोर्स हैं।

शेयर मार्केट में जैसे कुछ माह के प्रदर्शन के बाद नजर पड़ने का सवाल बढ़ा है। एक निजी कंपनी में स्टॉक ब्रोकिंग का काम देख रहे संजय कुमार ने बताया, जहां कई निवेश कंपनियों और वित्तीय सलाहकार ब्रोकिंग में काम में हैं। इनके पास वहां जॉब के कई पीके हैं। इस क्षेत्र में प्रवेश को देखते हुए एनबीए, सीए, आईआईएलए, एम और एच कर रहे हैं। स्टॉक एक्सचेंज में मगया प्राइवेट लिमिटेड, गैरिफेड अपन प्रोड्यूसर बना रहे हैं। शेयर बाजार में रोजगार को चाह रहे हैं मुख्य रूप से इकोनॉमिस्ट, जर्नालिस्ट, फाइनेंसियल एनालिस्ट, इन्वेस्ट एडवाइसर, कैपिटल मार्केट एनालिस्ट के रूप में जुड़ जा सकते हैं।

कोर्स और योग्यता

शेयर बाजार से जुड़ने के लिए कल रहे विभिन्न प्रकार के कोर्स प्रोग्राम के लिए अर्थात् का स्वतंत्र होना अनिवार्य है। कुछ संस्थानों में प्रवेश के लिए 50 प्रतिशत अंक से स्नातक उत्तीर्ण प्रदर्शनों के लिए एक या दो वर्षों डिग्री का चर्चिकाई कोर्स है। नेक्स्टन स्टॉक एक्सचेंज द्वारा संचालित



प्रमुख संस्थान

- मुख्य स्टॉक एक्सचेंज ट्रेडिंग इंस्टीट्यूट मुख्य
- दिल्ली विश्वविद्यालय दिल्ली
- इंस्टीट्यूट ऑफ कैपिटल मार्केट प्रेक्टाइमल न्यू दिल्ली
- इंस्टीट्यूट ऑफ कैपिटल मार्केट नवी मुंबई
- जेडबी इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज एंड रिसर्च, नासिक
- पुणे विश्वविद्यालय, पुणे
- क्वैलीएनएनएच, हैदराबाद

शेयर मार्केट के फील्ड में कई हिस्से

शेयर मार्केट में कई फील्ड हैं। हर एक में बेहतरीन करियर बनवा जा सकता है। बाजार का विश्लेषण करने के साथ ब्रोकिंग और इसमें कई हिस्से हैं। बहाने प्रोफेशनल्स की जरूरत है। शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने वालों के लिए सलाहकार के रूप में भी काम किया है। एक्सपर्ट के रूप में काम के लिए इस क्षेत्र में काफी स्कोप है।
आर्थिक मगया, गैरिफेड, एनएच

विश्लेषण करने वालों की भी जरूरत

शेयर बाजार में कई तरह के करियर के अवसर मौजूद हैं। इकोनॉमिस्ट, आउटरीच, फाइनेंसियल एनालिस्ट, इन्वेस्ट एनालिस्ट, कैपिटल मार्केट एनालिस्ट, म्यूचुअल फंड्स, सिंपलिटि एनालिस्ट, ड्रिफ्टी एनालिस्ट। इस सेक्टर में बाजार के ऊपर-नीचे पर नजर रखने के साथ उनका विश्लेषण करने वालों की जरूरत है, उनके परिणाम बताए जा सकते हैं।
विकास शर्मा, ग्राहिकर

समझदारी से करें रुपये का प्रबंधन, निवेश जरूरी

आज के डिजिटल युग में वित्तीय साक्षरता महत्वपूर्ण है, खासकर भारत में जहां लाखों लोग वित्तीय मामलों से अनजान हैं। इससे समझदारी से पैसे का प्रबंधन करना, बचत, निवेश, ऋण, बीमा, पेंशन योजना और अन्य वित्तीय उत्पादों के बारे में जानकारी प्रदान करना शामिल है। भारत में समृद्धि और विकास की



विकास शर्मा,

दिशा में आगे बढ़ने के लिए, सरकार, वित्तीय संस्थानों और अन्य संगठनों

को वित्तीय साक्षरता बढ़ाने के लिए काम करना चाहिए। वित्तीय साक्षरता के लाभों में वित्तीय स्वतंत्रता, उचित ऋण प्रबंधन, बचत और निवेश, वित्तीय धोखाधड़ी से सुरक्षा और जन धन योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा सरकारी योजनाओं के लाभ शामिल हैं। हाल ही में सेबी ने वित्तीय साक्षरता के लिए एनआईएसएम के साथ एक मुफ्त प्रमाणन कार्यक्रम शुरू किया है

कॅरियर कोरोना के बाद बढ़ी डिमांड, अब 30 साल के युवा भी करा रहे इंश्योरेंस सवा सौ करोड़ के देश में इंश्योरेंस एजेंट का भविष्य सुरक्षित, सैलरी के साथ कई फायदे

एक नजर में

- इंश्योरेंस इंडस्ट्री का विकास काफी तेजी से हो रहा है। पीपल स्क्वर्स और सेलिंग स्क्वर्स वाले लोगों के लिए कार्य और अवसर समय के साथ बढ़ते जा रहे हैं।
- आने वाले 10 वर्षों में इंडस्ट्री का विकास अपने चरम पर होगा। युवाओं के लिए इंश्योरेंस सेक्टर मायों के कॅरियर के तौर पर देखा जा रहा है।
- पूर्ण में पनआई जैसे कई प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं, जो स्टूडेंट्स को इंश्योरेंस में बेहतरीन कोर्सेज ऑफर करते हैं।
- बिरला स्कूल्स और आईसीएफआई जैसे इंस्टीट्यूट्स स्टूडेंट्स के लिए रेगुलर और डिस्टेंस एजुकेशन दोनों में ही विभिन्न कोर्सेज ऑफर करते हैं।

युवाओं के लिए ऐसा कॅरियर ऑप्शन, जो खत्म नहीं होगा

सवा सौ करोड़ के देश में इंश्योरेंस एजेंट का भविष्य सुरक्षित है। कोरोना के बाद से इंश्योरेंस सेक्टर की डिमांड बढ़ी है। अब 30 साल तक के युवा भी हेल्थ पॉलिसी ले रहे हैं। लाइफ



इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस और जनरल इंश्योरेंस के लिए आइसी-30 एग्जाम देना होता है। अलग-अलग कंपनी अपने हिसाब से सैलरी, इंसेंटिव और कमीशन देती है। युवाओं के लिए यह ऐसा कॅरियर ऑप्शन है, जो कभी खत्म होने वाला नहीं है। यह उनके लिए बेहतर है, जिन्होंने कोई प्रोफेशनल डिग्री नहीं की है। बस आपकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी होनी चाहिए और सामाजिक बायरा बड़ा होना चाहिए।

पिंकल शर्मा, फाइनेशियल स्ट्रीट, ग्वालियर

इस समय देश में बूम पर है इंश्योरेंस सेक्टर

इंश्योरेंस का सेक्टर इस समय बूम पर है। कोरोना काल के बाद लोगों को इसकी अहमियत समझ आ गई है। सबसे ज्यादा



यूथ जो फ्री होकर अच्छी अर्निंग करना चाहता है, इस क्षेत्र में उसके लिए बहुत संभावनाएं हैं। एक एडवाइजर के तौर पर शुरूआत करके मैनेजर से लेकर अन्य पोस्ट तक पहुंच सकते हैं। इस फील्ड में जितना काम करेंगे उतना पैसा है। सपनों को पूरा करने के लिए एग्जाम क्लियर करना होता है।

प्रिया जायसवाल, सीनियर रिक्रूटमेंट डवलपमेंट मैनेजर, जबलपुर

कोरोना के बाद से काफी अवेयर हुए हैं लोग

मैं पिछले 25 साल से इंश्योरेंस एजेंट हूँ और इसी से मेरा घर भी चलता है और मैंने अपने बच्चों को इसी सेक्टर की अर्निंग से पढ़ा-लिखाकर काबिल भी बना दिया है। मैं समझता हूँ इंश्योरेंस सेक्टर एक बहुत ही अच्छा कॅरियर विकल्प है जो कहीं न कहीं आपको लोगों से जोड़ता भी है और अर्निंग के लिहाज से भी काफी बेहतर है। केवल इस सेक्टर में पार्ट टाइम जॉब न करते हुए संपूर्ण को फुल टाइम जॉब करना चाहिए। इंश्योरेंस एजेंट बनकर आप लोगों को कहीं न कहीं हेल्थ और उनके परिवार के प्रति चिंता करने के लिए सजग भी करते हैं। कोरोना के बाद से लोगों में इंश्योरेंस को लेकर काफी जागरूकता भी आ गई है। ज्यादा से ज्यादा लोग अब बीमा कराने लगे हैं। पहले लोग इंश्योरेंस पर ज्यादा भरोसा नहीं करते थे लेकिन अब अवेयर हो रहे हैं।

रविन्द्र रघुवर्षी, एलआईसी एजेंट (फाइनेशियल एडवाइजर), इंदौर

day special नेशनल इंश्योरेंस अवेयरनेस डे कोरोना के बाद 27% तक बढ़े पॉलिसी धारक, इनमें युवा भी



कम उम्र के युवा दिखा रहे पॉलिसी में इंटेरेस्ट

फाइनेशियल स्ट्रीट के फाउंडर विकास शर्मा ने बताया कोरोना के



बाद से इंश्योरेंस सेक्टर की डिमांड बढ़ी है। अब 30 साल तक के युवा भी

हेल्थ पॉलिसी ले रहे हैं। हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस की तरह जनरल इंश्योरेंस भी बहुत जरूरी है, जो हम इंडियंस नहीं लेते। जनरल इंश्योरेंस कराने वाले मामूली लोग हैं। जबकि यह बीमा हमारी रोज की समस्याओं का सॉल्यूशन है। लोग जब गाड़ी खरीदते हैं तब एजेंसी ही बीमा कराकर देती है। इसके बाद उसे रिनुअल कराने वाले लोगों का परसेंटेज काफी कम है।

भविष्य के लिए प्री प्लान करें इंश्योरेंस

इंश्योरेंस सेल्स ट्रेनर संजय धूपर ने बताया दुनिया में जरूरत पड़ने पर



हर चीज मिल सकती है, लेकिन इंश्योरेंस नहीं। इसे लेने के लिए प्री प्लान

करना होगा। इंश्योरेंस पॉलिसी हर व्यक्ति को लेनी चाहिए। क्योंकि इससे परिवार का भविष्य सुरक्षित रहता है। हालांकि कोविड के कारण लोगों ने इसकी इम्पोर्टेंस को समझा और बेझिझक पॉलिसी ली। पिछले 50 साल में लोगों का इंश्योरेंस का इतना झुकाव नहीं दिखा, जितना अभी हुआ है। लोगों ने टर्म प्लान और हेल्थ पॉलिसी को सबसे ज्यादा प्रिफर किया।

इंश्योरेंस आपको भविष्य के लिए सिक्वोर करता है। अधिकतर लोग लाइफ इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस को तो वेटेज देते हैं, लेकिन जनरल इंश्योरेंस को पीछे छोड़ देते हैं, जबकि यह भी बहुत जरूरी है। इंश्योरेंस कंपनियों की माने तो कोरोना के बाद से लगभग 27 प्रतिशत पॉलिसी धारक बढ़े हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें 30 साल उम्र के युवा भी शामिल हुए हैं। इंश्योरेंस अधिकारियों के अनुसार आम तौर पर लोग 40 वर्ष की आयु के बाद हेल्थ पॉलिसी लेते थे, जिसमें अब अवेयरनेस आई है।



Testimonial

"I have been an insurance advisor for the last 5 years and gone through many YouTube videos and week-end classes. But that was all theory. Thanks to you, you taught me the practical way, which helped me a lot. Now I can give better advice to my clients. Best wishes."

Mr. Abhimanyu (Insurance Advisor) – HDFC Life, Gudgaon

"I am a housewife an retail (small) investor and have limited money.

Thanks to your free course offer, because in a limited amount, either I can buy an expensive online course or invest. Thank you for teaching me the difference between money and wealth."

Mrs. Pooja (House Wife) - Vadodara

"Thank you very much. I am from a non-finance background and have zero knowledge of the stock market, but what a great way you taught me theory and practical and the importance of financial literacy. Now I am a software developer and a certified stock market analyst."

Mr. Arun (Software Developer) – Pune

